

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14032023-244363  
SG-DL-E-14032023-244363असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 540
No. 87]	DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944	[N. C. T. D. No. 540

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2023

सं. फा. 6/18/2020 —न्यायिक/अधी.वि./545.552.—अद्यतन संशोधित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7(1)(क) के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री अजय सिंह शेखावत तथा सुश्री न्याय बिन्दु को दिल्ली न्यायिक सेवा में उनके तत्काल कनिष्ठों की दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति की तारीख से नियमित आधार पर अनुमानतः नियुक्त /पदोन्नत करते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें कोई बकाया ग्राह्य नहीं होगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

---

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS****NOTIFICATION**

Delhi, the 13th March, 2023

**No. F. 6/18/2020- Judl./ Suptlaw/545-552.**—In Pursuance of the provisions of Rule 7(1)(a) of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote Mr. Ajay Singh Shekhawat and Ms. Niyay Bindu on regular basis notionally, with effect from the date their immediate juniors in Delhi Judicial Service were promoted to Delhi Higher Judicial Service. However, it is made clear that no arrears would be admissible to them.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.